



## राष्ट्रीय COVID चेतावनी

# घर पर रहो

**5 नवे - 2 डिसे**

केवल खाना, चिकित्सीय कारण, व्यायाम, शिक्षण या काम के लिए घर से बाहर निकलें

यदि संभव हो तो आपको घर से काम करना चाहिए

आवश्यक ना हो तो यात्रा से बचें

विद्यालय और आवश्यक दुकानें खुली रहेंगी

याद रखें: हाथ धोएं, चहेरा ढंके, दूरी रखें

नवीनतम दिशानिर्देश और राहत [gov.uk/coronavirus](https://www.gov.uk/coronavirus) पर पाएं

सावधान रहें ▶ वाइरस को नियंत्रित करें ▶ जीवन बचाएं